

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा

पत्रांक:- 265/अनु रोसड़ा, दिनांक:- 20/02/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रोसड़ा।

सेवामें,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- राज्य योजना नाबार्ड (3054 R&B) अनुरक्षण मद अन्तर्गत भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष-राज्य योजना नाबार्ड (3054 R&B) अनुरक्षण मद अंतर्गत कराये गये कार्य का भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में अधियाचना तैयार कर आवंटन उपलब्ध कराने हेतु समर्पित किया जा रहा है। संवेदक द्वारा किया गया अनुरक्षण कार्य संतोषप्रद है।

भवदीय से अनुरोध है कि प्रपत्र के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने के कृपा किया जाय।

अनु०- 1. विहित प्रपत्र।

2. मापीपुस्त की छाया प्रति।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा।



गैर योजना मद में शीर्ष Nabard अन्तर्गत पथों में पंचवर्षीय अनुरक्षण अधियाचना प्रपत्र :-

क्रमांक	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	एकरचना के अनुसार प्रकथित राशी वर्षवार					उद्यम की राशी वर्षवार					उद्यम की राशी वर्षवार					अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि	अनुसंधान हेतु अतिरिक्त राशि
---------	----------------------	--------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

1. कार्य विवरणों के अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है।
2. पथ में MQMU/PQM/IE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नहीं है।
3. अनुमोदित परिमाण विपन्न की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% की अधिकतम सीमा के भीतर है। साथ ही अनुमोदित परिमाण में नदों की मात्रा का विचलन भी 20% से ज्यादा नहीं है।

अनु० प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र, अनुमोदित परिमाण विपन्न एवं एकरचना की अभिलेखान्वित प्रति।

S. 17/4/24
 प्रमुख कार्य निष्पादक, कार्य प्रमंडल, रोसरा।

17/10/24
 प्रमुख कार्य निष्पादक, कार्य प्रमंडल, रोसरा।

Sch. XLV—Form No. 134				Contents of area
Particulars	Details of actual measurement			
	No.	L.	B.	D.
				R ₈ 108614/-
(7) Maint. OF 200m x KM post etc				
Ref ST VTM B R NO. — (61)				
= 1.32 km @ R ₈ 739.60/km				
				= R ₈ 976.00
(8) cutting of branches of trees etc.				
Ref ST VTM B R NO. — (61)				
= 27 nos @ R ₈ 100.50/EAC = R ₈ 2713.00				
(9) cutting of shrubs from roadway				
Ref ST SMB R NO. — (61)				
= 52 nos @ R ₈ 6.17/nm				= R ₈ 327.00
by 1 meter or from side wheels etc				
Ref ST VTM B R NO. — (61)				
345.94 m ² @ R ₈ 2.06/m ²				
				= R ₈ 713.00
(11) white washing of parapet etc				
Ref ST VTM B R NO. — (62)				
= 6252.92 m ² @ R ₈ 15.59/m ²				
				= R ₈ 985.00
Total				R ₈ 114168.00
Deduct @ 10%				→ R ₈ 11417.00
Net				R ₈ 102751.00
<i>[Signature]</i>				
<i>[Signature]</i>				
<i>[Signature]</i>				

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Restoration of drain cuts etc					
Ref BT VMB R No. — (60)					
= 45.03 M ³ @ Rs 361.87/M ³					
					= Rs 16295.00
② Maint. of earthen shoulder etc					
Ref BT VMB R No. — (60)					
= 250.18 M ² @ Rs 54.36/M ²					
					= Rs 13600.00
③ Repair of pot holes etc					
Ref BT VMB R No. — (61)					
Ref BT VMB R No. —					
= 7.51 M³ @ Rs					
7.51 M ³ @ Rs 6769.34/M ³					
					= Rs 50838.00
④ Maint. of Bituminous surface etc					
Ref BT VMB R No. — (61)					
= 52.78 M ² @ Rs 188.88/M ²					
					= Rs 9969.00
⑤ Maint. of x/p culvert etc					
Ref BT VMB R No. — (61)					
= 16003 @ Rs 1076.79/each = Rs 17229.00					
⑥ Maint. of Road sign etc					
Ref BT VMB R No. — (61)					
= 0.66 KM @ Rs 1034.50/KM					
					= Rs 683.00

GOVERNMENT OF BIHAR



Supplementary Agreement

सत्यमेव जयते

NABARD

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

GOVERNMENT OF BIHAR

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

RWD, WORKS DIVISION, ROSERA

AGREEMENT NO.

34/SBD/2017-18 (REVISED)

NAME OF PROJECT

UDAYPUR TO UDAYPUR KALI STHAN, WARD-12

Page No. 01 to 10

attested

21/12/24

EE

कार्यपालक अभियंता
ग्रा० का० विभाग
कार्य प्रमंडल, रासरा

20/12/24
subm...

20/12/24

कार्यपालक अभियंता

ग्रा० का० विभाग

कार्य प्रमंडल, रासरा

21/12/24

AGREEMENT DETAILS UNDER NABARD

- 1 Name of Road :- UDAYPUR TO UDAYPUR KALI STHAN, WARD-12
- Length (In Km) :- 1.315
- 2 Package No :-
- 3 Name of Agency :- NAVIN KUMAR RAY
AT-KHARAHIA, MANGALGARH, HASANPUR
- Reg No & Grade with Validity :- 2160128
RWD (CLASS-II)
- PAN No :- AQPPR3885F
- GST No :- 10AQPPR3885F1ZK
- VAT No :- 10129982052
- 4 Agreement No :- 34/SBD/2017-18 (REVISED)
- 5 Supplementary Agreement Amount :- 6925570.00
- 6 Approved Rate :- 10.00% Below
- 7 Performance Security Deposit by Agency (In Lakh) :-
- 8 Date of Commence :-
- 9 Time of Completion :- 09 Months
- 10 Defect Liability per :- 5 Years
- 11 Administrative Approval (In Lakh) :- Const. Cost : 77.49
Maint. Cost : 3.93
Total : **81.42000**
- 12 Technical Sanction (In Lakh) :- Const. Cost : 73.48786
Maint. Cost : 3.46293
Total : **76.95079**
- 13 Total No. of item of Work with maintenance :- Revised Only In Constructuion
- 14 Expenditure incurred Under Head :- NABARD

24/03/2018
EXECUTIVE ENGINEER
RWD Works Division, Rosera
18/3/19

SUMMARY OF 5 YEARS MAINTENANCE COST

3

NAME OF ROAD :

UDAYPUR TO UDAYPUR KALI STHAN, WARD-12

LINK ROUT NO :

L049

DISTRICT :

Samastipur

BLOCK :

Rosera

LENGTH OF ROAD (IN KM) :

1.315 KM

**Supplementary
Agreement**

PARTICULARS	QUANTITY	FIVE YEARS MAINTENANCE COST		
		Unit (In Km)	Rate	Amount IN RS.
1 St Year Maintenance		1.315		35729
2 St Year Maintenance		1.315		38795
3 St Year Maintenance		1.315		47667
4 St Year Maintenance		1.315		84230
5 St Year Maintenance		1.315		105242
Total				<u>311663</u>

20/05/2019

18/05/19
कार्यवाही के लिये
ग्रामीण कार्य विभाग
प्र० रोसरा
18/05/19

18/05/19



बिहार BIHAR

क्रमांक- 6539 दि० तिथि 13-3-19

स्टाम्प का मूल्य- 1000/-

हस्ता का नाम- मनीष कुमार राय

श.किन- अवर हिजा

पता- 6539 दि० तिथि

AC 524108



Supplementary Agreement

AGREEMENT UNDER NABARD

This agreement, made the day of 20 Between Executive Engineer, RWD, Works Division, Rosera and **NAVIN KUMAR RAY** AT-KHARAHIA, MANGALGARH, HASANPUR

Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Construction and Maintenance of work – **UDAYPUR TO UDAYPUR KALI STHAN, WARD-12**

Under **NABARD** Package No : and Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a cost of Rs. **6,925,570 RS.: Sixty Nine Lakh Twenty Five Thousands Five Hundred Seventy Only.**

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as following:-

- 1) In this Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to, 63 and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
- 2) In Consideration of the payments to be made by the Employer to the contractor as hereinafter mentioned, the contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the contract.
- 3) The employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the works and the remedying the defects wherein the co-

मनीष कुमार राय

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
रौसरा रोसाडा
18/3/19

- contract price or such other sum as may become payable under the provisions of the contract at the times and to the manner prescribed by the contract.
- 4) The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement, Via :
- (i) Letters of Acceptance :
 - (ii) Notice to proceed with the works :
 - (iii) Contractor's Bid :
 - (iv) Contract Date :
 - (v) Special Conditions of contract and general condition of contract :
 - (vi) Specifications :
 - (vii) Drawings :
 - (viii) Bill of Quantities; and
 - (ix) Any other documents listed in the contract date as per forming part of the contract.

In witness whereof the parties thereto have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of
Was hereunto affixed in the presence of :

Signed, sealed and delivered by the said
.....

In the presence of:

Binding Signature of Employer

Bidding Signature of Contractor

Copy 18/1/19
Executive Engineer
RWD, Works Division, Rosera
18/1/19

7/1/19

(6)

मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:- II/मु0अ0-3,त0स्वी0-19-132/17

6478

पटना दिनांक:- 12-10-17

सक,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, समस्तीपुर।

विषय:- शीर्ष नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, रोसड़ा के अधीन उदयपुर से उदयपुर काली स्थान, बार्ड-12 तक पथ (ल0-1.315 कि0मी0) निर्माण कार्य के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका का पत्रांक -1474 अनु0 दिनांक-19.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्राक्कलन को, जॉचोपरान्त कुल रुपये 75.69 लाख (पचहत्तर लाख उनहत्तर हजार) मात्र के लिए विस्तृत प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए इस शर्त के साथ लौटाया जाता है कि:-

1. बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-7034 दिनांक-12.06.17 के द्वारा रुपये 81.42 लाख का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है।
2. स्वीकृत प्राक्कलन की जांच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
3. समर्पित किए गए तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बन्धि सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
4. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
6. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, समस्तीपुर ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।
7. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है।
8. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता प्राक्कलन में अन्तरविष्ट मात्रा एवं दर की सम्पुष्टि कर संतुष्टि के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

अनु0- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन
मुख्य अभियंता-3, पटना

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

/पटना, दिनांक-

मु० अ०-४ (मु०)-नाबार्ड-०३-३९/२०१७

जय कुमार, भा० प्र० से०
सचिव।

मे,
सलेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
हार, पटना।

योजना शीर्ष ४५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत-परिव्यय-१०३-ग्राम विकास-राज्य योजना-०१०५-ग्राम विकास की योजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में (परिशिष्ट-१ के रूप में संलग्न सूची अनुसार) कुल ९६ पथ निर्माण योजनाओं पर पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

निदेशानुसार योजना शीर्ष ४५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-१०३-ग्राम विकास-राज्य योजना - शीर्ष-०१०५ - ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) - उप शीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों परिशिष्ट - १ के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल ९६ पथ निर्माण योजनाओं जिसकी लम्बाई १५३.७६३ कि०मी० एवं राशि रु० ३८.५४७३ करोड़ (एक सौ चार करोड़ अड़तीस लाख चौवन हजार सात सौ तीस रु० मात्र) है-हेतु पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान जाती है।

परिशिष्ट-१

संपोषित योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए प्रशासनिक अनुमोदित योजनाओं की सूची :-

District	Works Division	Block	MMGSY CNCPL NO.	Name of Road	Length (K.M)	Construction Cost	Maintenance Cost	TA Amount (In Lacs)	Amount Lac/K.M
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Patna	Badh	Ghoswari	S02	More Tartar PMGSY Road Mahrani Asthan to Astabad via Dagarpur	1.045	57.544	2.557	60.10100	55.07
Patna	Badh	Ghoswari	S09	Ghoswari Karra PMGSY Road to Kanya Vidalya Pajina	1.100	55.788	4.236	60.02400	50.72
Patna	Badh	Athmalgola	S010	Jai Prakash Mahuli Halt to Mahuli	0.350	25.572	0.767	26.33900	73.06
Patna	Badh	Pandarak	S013	Mamukhabad Gopkita PMGSY Road to Gopekita Yadav Tola	1.000	54.214	4.314	58.52800	54.21
Patna	Badh	Belchi	S010	NH 30A to Sahpur	1.95	87.845	12.935	100.78000	45.05
Patna	Badh	Badh	S05	T03 (NH30A) to Ajadnagar Anusuchit Jati Tola	2.50	110.313	12.677	122.99000	44.13
Patna	Paliganj	Dulhin Bazar	S06	SH (Bikram Pali Road) to Lala Bhadsara Mahadalit Tola	1.05	68.310	2.420	70.73000	65.06
Patna	Patna	Daniyawan	S010	T07 to Jamalpur	1.165	76.210	5.170	81.38000	65.42
Nalanda	Rajgir	Silaw	S07	Silaw Giriya road to Dumari	0.500	35.679	1.153	36.83204	71.36
Nalanda	Rajgir	Katri-Sarai	S025	Lohraipur to Nakiti Sarai	0.700	49.480	1.610	51.09000	70.69
Nalanda	Rajgir	Giriyak	S02	Besunpur (Griyak) to Chakeya Ghorakatora	0.500	34.874	0.000	34.87400	69.75
Nalanda	Rajgir	Ben	S03	Jandhero Akauna road to Mirjapur	1.200	110.523	5.357	115.88000	92.10
Nalanda	Rajgir	Silaw	S04	Barakar to Dayarampur	3.745	230.580	15.610	246.19000	61.57

Siwan	Siwan-2	Andar	S021	Belhai Middle School to Ujain ka Bangra Dhobi Tola	1.150	75.700	3.820	79.52	65.83
Siwan	Siwan-2	Nautan	S01	Gambhirpur More to Gambhirpur	3.300	213.147	15.743	228.89	64.59
Siwan	Siwan-2	Hussainganj	S012	PMGSYL23 to Hasanpura	2.850	178.052	11.803	189.855	62.47
East Champaran	Areraj	Areraj	S04	SH Mungaha to Harijan Toli	0.819	55.320	1.193	56.513	67.55
East Champaran	Areraj	Areraj	S07	Ramshirya Chowk to Barharwa Jalwar Tola	0.945	57.526	1.611	59.137	68.08
East Champaran	Pakridiyal	Pakridiyal	S012	Nawada Duga Asthan to Dher Aana	1.071	64.347	2.413	66.76	60.08
East Champaran	Pakridiyal	Patahi	S032	Bhakrahya Mukhya Path to Saniya Sammat	0.546	30.816	1.667	32.483	56.44
East Champaran	Pakridiyal	Patahi	S014	Patahi Tadu to Nanhkar	0.998	66.064	1.245	67.309	66.20
Samastipur	Rosera	Rosera	S08	Udaypur to Udaypur Kali Sine ward -12	1.315	77.490	3.93	81.42	58.93
Samastipur	Samastipur	Kalyanpur	S06	Ladoura si Kanojar REO Path ke Dhobahi tola to sormar karuwalkuan hote hue Madanpr Primary School	5.450	423.990	20.97	444.96	77.80
Muzaffarpur	Muzaffarpur West	Sahabganj	S05	Surendra Prasad ke ghar se Bajriy Ghat hote huye Brajkishor Patel ke ghar hote huye To Padhan Mantri Sadak Tak	1.530	99.750	5.98	105.73	65.20
Muzaffarpur	Muzaffarpur West	Sahabganj	S057	Kursaida S74 Masjid ke Nikat se Madan Ali ke tola hote huye To Madhy Vidyalaya Ahiyapur Tak Tak	1.225	84.330	4.80	89.13	68.84
Muzaffarpur	Muzaffarpur West	Kanti	S04	Shaine Chupra Devanand me Rajput To Pradhan Mantri Sadak me Bahendra Singh ke Ghat se To Firpur High School Tak Via Rput Tola Near Nast REO pul ad Sahu Tola Hote Huye	1.070	72.300	3.35	75.65	67.57
Muzaffarpur	Muzaffarpur West	Marwan	S056	Bishunpur Fatehpur Pradhanmatri Sadak ke Tiwari Tola To Shubhankalpur Pradhanmatri Sadak Via Pratmik Vidyalaya Bishunpur Shahid Chandrika Baitha ke ghar hote huye	1.145	76.910	2.84	79.75	67.17
Muzaffarpur	Muzaffarpur West	Motipur	S049	PMGSY Road me Shivdhari Mahto ke ghar se To Yogendra Thakur ke Bathan tak	1.360	77.480	6.650	84.13	56.97
Muzaffarpur	Muzaffarpur West	Kanti	S040	Bahadur Chowk bazar Pokhat Rajendra Sah ke Ghar se To Harchanda Siman Panchayat Bhawan raksa tak via lulu pandit Jagdisi sah ke ghar hote huye	1.520	104.490	5.40	109.89	68.74
Total					76.492	4869.039	251.914	5120.95325	
Grand Total					153.763			10438.5473	

2. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
3. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, संबंधित कार्य प्रमंडल, योजना की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमंडल सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
5. कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमंडल, योजना के कार्य सम्पदन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
6. कार्य ई-निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।
7. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जॉयफल के गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा।
8. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रादेशिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी। प्रादेशिक स्वीकृति के समय सभी सक्षम प्राधिकार IRC SP-72 वर्ष 2015 एवं IRC SP-62 वर्ष 2014 के तकनीकी प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परियोजना-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड P-4515001030105 एवं स्कीम कोड-5369 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
10. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परियोजना-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 454.31 लाख रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
11. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, संबंधित कार्य प्रमंडल, द्वारा योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमशः संबंधित अध्क्षण अभियंता एवं संबंधित मुख्य अभियंता, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. इन योजनाओं का निर्माण नाबार्ड के तहत कराये जाने के प्रस्त्व पर मा0 मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है। ये 98 पथ Brics New development Bank (NDB) वं वित्त पोषण के लिए पूर्व में चिन्हित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के 656 पथों की सूची में शामिल है।
13. इन पथवार योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर स्केचा सं0- मु0 अ0-4 (मु0) नाबार्ड-03-39/2017 के पृ0 सं0-22/टि0 पर दिनांक 20.05.17 को अनुमोदन प्राप्त है।
14. बिहार कोषागार सहित में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
15. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 2.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0 96 दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संविका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) नाबार्ड-03-39/2017 के पृष्ठ संख्या-25/टि0 पर दिनांक-01.04.17 को प्राप्त है।
16. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनिर्वाजित की गयी है, अन्य में नहीं।
17. योजना के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्रावकलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
18. योजना के क्रियान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (निर्वाचित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
19. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-
(संजय कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापक- मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-39/2017
 प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 /पटना, दिनांक-
 ह0/-
 अपर सचिव

7834 /पटना, दिनांक-12/6/17
 ज्ञापक- मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-39/2017
 प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रवन सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख एवं ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/सभी संबंधित मुख्य अभियंता, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0-4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य अंचल/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (नौवां कम्प्लेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आउटरीच नोट्स ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
 07/06/17
 अपर सचिव